

आरती श्री विश्वकर्माजी की

ॐ जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जय श्री विश्वकर्मा

सकल सृष्टी मे विधि को श्रुति उपदेश दिया,
जीव मात्र का जग मे ज्ञान विकास किया
जय श्री विश्वकर्मा..

ऋषि अंगिरा तप से शांति नही पाई,
ध्यान किया जब प्रभु का सकल सीधी आई,
जय श्री विश्वकर्मा...

रोग ग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना,
संकट मोचन बनकर दूर दुख कीना,
जय श्री विश्वकर्मा...

जब रथकार दम्पति, तुम्हारी टेक करी,
सुनकर दीन प्रार्थना विपत हरी सगरी,
जय श्री विश्वकर्मा..

एकानन चतुरानन, पंचानन राजे
द्विभुज चतुभुज दशभुज, सकल रूप सजे
जय श्री विश्वकर्मा....

ध्यान धरे तब पद का, सकल सिद्धि आवे,
मन द्विभुज मिट जावे, अटल शक्ति पावे,
जय श्री विश्वकर्मा...

श्री विश्वकर्मा की आरती जो कोई नर गावे,
भजत गजानन्द स्वामी सुख सम्पति पावे,
जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जयश्री विश्वकर्मा

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/6798/title/aarti-shri-vishkarma-ji-ki->

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |